




पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एक नवरत्न पीएसयू

कार्य-निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही



उज्ज्वल भविष्य के लिए
निधियन

विषय – सूची



क समेकित कार्य-निष्पादन


- 01 पीएफसी : एक नजर
- 02 अर्जन संबंधी अपडेट
- 03 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

ख एकल कार्य-निष्पादन

- 01 मुख्य विशेषताएं
- 02 अर्जन संबंधी अपडेट
- 03 परिसंपत्ति गुणवत्ता
- 04 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन
- 05 शेयरधारकों का दृष्टिकोण

क. समेकित कार्य-निष्पादन

1 पीएफसी : एक नजर



1. ईईएसएल – एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिस लिमिटेड
2. ईईएसएल में 15% हितधारिता पीएफसी (24.97%) और आरईसी (22.18%) समेकित हितधारिता है।

2 અર્જન સંબંધી અપડેટ

मुख्य समेकित वित्तीय



टिप्पणी:. आरईसी लिमिटेड से पीएफसी को लगभग 1,143 करोड़ रुपए का लाभांश अगली तिमाही अर्थात ति4'20 में दर्शाया जाएगा।

मुख्य समेकित वित्तीय



(रुपए करोड़ में)

	ति. 3 वि.वर्ष 20	ति. 2 वि.वर्ष 20	ति. 3 वि.वर्ष 19	9माह वि.वर्ष 20	9माह वि. वर्ष 19
ब्याजगत आय	15,679	15,397	13,884	45,586	39,245
ब्याजगत व्यय	10,262	10,153	8,871	30,352	25,481
निवल ब्याजगत आय	5,417	5,244	5,013	15,234	13,764
कर पश्चात लाभ	3,387	2,497	3,876	8,784	9,249
कुल संचयी आय	3,522	2,269	4,011	8,689	9,116

(मार्च - समाप्त वर्ष)


विश्लेषण उद्देश्य के लिए आंकड़ों को पुनःएकत्रित/पुनःएकीकृत किया गया है। इसलिए, रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के साथ सामंजस्य नहीं है।

3 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन


प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन – 9माह'20



ऋण परिसंपत्ति बहीखाता 6,40,387 करोड़ रुपए



9माह '20 1,00,708 करोड़ रुपए का संवितरण



पीएफ़सी समूह विद्युत क्षेत्र की बहुत बड़ी वित्तीय कंपनी है।

¹ तुलनात्मक उद्देश्य के लिए बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ > 25MW को समेकित नवीकरणीय आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

ख. एकल कार्य-निष्पादन



1 विशेषताएं

ति3 निवल लाभ 1,680 करोड़ रुपए पर

ति2'20 से 45% बढ़ोतरी

टियर I के साथ 19.32% सीआरएआर 14.37% पर

अधिग्रहण-पूर्व स्तर पर सीआरएआर


1,720 करोड़ रुपए के पीएफ़सी ऋण के निमित्त ओटीएस

रत्न इंडिया अमरावती का समाधान किया गया

ति3'20 के लिए स्थिर वित्तीय संकेतक




 10.66% पर प्रतिफल




तिमाही दर तिमाही अर्जित परिसंपत्तियों पर स्थिर प्रतिफल कायम करना

 7.75% पर लागत



सुव्यवस्थित निधियों की लागत- तिमाही दर तिमाही कम करना

 2.91% पर स्प्रेड




चुनौतीपूर्ण प्रचालनात्मक परिस्थिति में बेहतर स्प्रेड

Resolution Efforts Yielding Results



निवल स्तर III परिसंपत्तियां 3.94% पर



- > निवल स्तर III पिछले 2 वर्षों में सबसे कम है
- > 9 माह'19 में 9.47% से 8.34% पर सकल स्तर III परिसंपत्तियां
- > पिछले 9 माह में 2,650 करोड़ रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किया गया।



2 અર્જન અપડેટ

राजस्व एवं वृद्धि

(रुपए करोड़ में)

	ति3 वि.व. 20	ति2 वि.व. 20	ति3 वि.व. 19	9माह वि.व. 20	9माह वि.व. 19
ब्याज आय	8,149	8,004	7,262	23,697	20,813
ब्याज व्यय	5,530	5,510	4,815	16,390	14,188
निवल ब्याज आय	2,619	2,494	2,447	7,307	6,625
कर पश्चात लाभ ^{1 एवं 2}	1,680	1,157	2,084	4,220	4,835
संचयी प्रावधान (स्तर I+II+III)	15,455	16,275	16,880	15,455	16,880
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु रिसर्व	2,466	3,093	3,630	2,466	3,630

(मार्च- समाप्त वर्ष)

पीएफसी ने कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 115 बीए के अंतर्गत ऑप्शन उपयोग किया है। परिणामस्वरूप, कम कर दरों पर आस्थगित कर/देयता के पुनःमापन के कारण तिमाही 3'20 एवं 9 माह'20 के लिए पीएटी। 2. इसके अतिरिक्त, यह परिकल्पना की गई है कि आरईसी अधिग्रहण के लिए प्रदत्त 14,500 करोड़ रुपए की अधिग्रहण कीमत का प्रभाव आरईसी से पीएफसी द्वारा लगभग 1,143 रुपए का घोषित लाभांश के माध्यम से अगली तिमाही के दौरान लाभ में किया जाएगा, यदि कोई हो।

अनुपात वार्षिक और दैनिक आधार पर हैं और इसमें विनियम/लाभ हानि शामिल नहीं हैं और उन्हें राउंड ऑफ किया गया है। इसके अतिरिक्त तिमाही 2'19/छमाही 1'19 के लिए रिपोर्टेड आंकड़ों को दिनांक 01.04.2017 से पीएफसी जैल के समामेलन के अनुसरण में तुलनीय बनाने के लिए पुनः दोहराया गया है।

महत्वपूर्ण अनुपात

(%में अनुपात)

	ति3 वि.व. 20	ति2 वि.व. 20	ति3 वि.व. 19	9माह वि.व. 20	9माह वि.व. 19
अर्जन परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	10.66	10.60	10.65	10.61	10.58
निधि की लागत	7.75	7.82	7.97	7.82	8.04
अर्जन परिसंपत्तियों पर ब्याज स्प्रेड	2.91	2.78	2.68	2.79	2.54
अर्जन परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज मार्जिन	3.28	3.13	3.42	3.14	3.32
नेट वर्थ (शेयर पूंजी+ सभी रिसर्व)	47,227 करोड़ रुपए	45,445 करोड़ रुपए	41,078 करोड़ रुपए	47,227 करोड़ रुपए	41,078 करोड़ रुपए

(मार्च- समाप्त तिमाही)


अनुपात वार्षिक और दैनिक आधार पर हैं और इसमें विनियम/लाभ हानि शामिल नहीं हैं और उन्हें राउंड ऑफ किया गया है। इसके अतिरिक्त तिमाही 3'19/9 माह'19 के लिए रिपोर्टेड आंकड़ों को दिनांक 01.04.2017 से पीएफसी जैल के समामेलन के अनुसरण में तुलनीय बनाने के लिए पुनः दोहराया गया है।



3 परिसंपत्ति गुणवत्ता

31.12.2019 तक 3,32,962 करोड़ रुपए की ऋण बही

2,77,744 करोड़ रुपए की
सरकारी ऋण परिसंपत्तियां



55,218 करोड़ रुपए की
निजी ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों में से 92% नियमित रुप से ऋण चुका रही हैं एवं किसी दबाव की परिकल्पना नहीं की गई है।

31.12.2019 तक प्रावधान की स्थिति

(रुपए करोड़ में)

	चरण I एवं II	चरण III	सकाल ऋण परिसंपत्तियों के % के रूप में चरण III	कुल
बकाया ऋण परिसंपत्तियां				
- सरकारी क्षेत्र	2,77,744	-	शून्य	2,77,744
- निजी क्षेत्र	27,453	27,765	8.34%	55,218
कुल बकाया राशि	3,05,197	27,765	8.34%	3,32,962
कुल प्रावधान राशि	801	14,654	-	15,455
निवल परिसंपत्तियां	3,04,396	13,111	3.94%	3,17,507

निजी क्षेत्र के स्तर III परिसंपत्तियों (एनपीए) के निमित्त 53% प्रावधान


टिप्पणी - इंड एस के अंतर्गत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) कार्यप्रणाली के अनुसार सभी ऋण परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

चरण 3 की ऋण परिसंपत्तियों की 27,765 करोड़ रुपए की समाधान स्थिति

एनसीएलटी समाधान

एनसीएलटी में
14,704 करोड़ रुपए

15 परियोजनाएं
64% प्रावधान



एनसीएलटी समाधान के बाहर

13,061 करोड़ रुपए का समाधान
एनसीएलटी के बाहर किया जा रहा है।

14 परियोजनाएं
41% प्रावधान

चरण III परिसंपत्तियों के निमित्त उपलब्ध 71% प्रावधाना रिसर्व*

*रिसर्व में चरण I प्रावधान + अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए रिसर्व + खंड 45 आईसी रिसर्व शामिल है।


47% प्रावधान के साथ 9,0786 करोड़ रुपए की 6 परियोजनाएं समाधान के समीप

एनसीएलटी के बाहर समाधान

आरकेएम पावरजेन
5,163 करोड़ रुपए

इंडिया पावर हल्दीया
959 करोड़ रुपए

एस्सार ट्रांसमिशन
438 करोड़ रुपए



इंड भारत उत्कल
1,368 करोड़ रुपए

झाबुआ पावर
764 करोड़ रुपए

जल पावर
386 करोड़ रुपए


एनसीएलटी समाधान



4 प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

ऋण परिसंपत्ति- संघटक-

Increasing thrust towards T&D & renewable business



	31.12.2019 तक	31.12.2018 तक
सकाल ऋण परिसंपत्तियां	3,32,962	2,98,580
योजना वार		
जनरेशन	2,33,245	2,15,432
- पारंपरिक जनरेशन	1,97,488	1,87,993
- नवीकरणीय ऊर्जा – बड़ी हाइड्रो परियोजनाएं (>25 मेगावाट)	17,480	13,447
- बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं से अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा	18,277	13,992
ट्रांसमिशन	27,555	24,118
वितरण	69,410	55,903
अन्य	2,753	3,127
क्षेत्र वार		
सरकारी क्षेत्र	2,77,744	2,46,600
निजी क्षेत्र	55,218	51,979

(रुपए करोड़ में)

	ति3 वि.व. 20		ति3 वि.व.19		9माह वि.व. 20		9माह वि.व. 19	
	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
संवितरण	18,413	100%	14,648	100%	47,246	100%	45,134	100%
योजना वार								
जनरेशन	11,936	65%	7,909	54%	27,132	57%	18,556	41%
ट्रांसमिशन	1,610	9%	1,588	11%	4,185	9%	4,389	10%
वितरण	4,811	26%	4,944	34%	15,621	33%	21,605	48%
अन्य	56	0.3%	207	1.4%	307	1%	584	1%
क्षेत्र वार								
सरकारी क्षेत्र	16,882	92%	13,841	94%	40,920	87%	42,282	94%
निजी क्षेत्र	1,531	8%	807	6%	6,326	13%	2,852	6%

9माह'20 में 63,790 करोड़ रुपए का जुटाव

75% घरेलू ऋण जुटाव एवं 25% विदेशी
ऋण जुटाव

9माह'19 से 54 ईसी बॉण्ड जुटाव
में 3 गुना बढ़ोतरी

250 यूएसडी मिलियन जुटाव


5 वर्ष की अवधि के लिए
ति'3 में जुटाव किए गए

लागत में 22बीपीएस कटौती

9माह'19 में 8.04% के निमित्त
7.82% पर निधि की लागत

अच्छी तरह से प्रबंधित देयता प्रोफाइल

31.12.2019 तक 2,89,264 रुपए के बकाया ऋण



निधियन प्रोफाइल की विविधता

घरेलू स्रोत से 86% एवं विदेशी मुद्रा स्रोत से 14%



तिमाही 1'20 में 5% के निमित्त कुल विविध दायित्व का 1% पर सीपी



5 वर्षों तक अवशिष्ट परिपक्वता के साथ एफसीएल 41% कुल एफसीएल पोर्टफोलियो के लिए 67% विनियम जोखिम हेजिंग



31.12.2019 तक विविध दायित्व

बहुआयामी विविध दायित्व

31.12.2019 तक
बकाया ऋण
2,89,264 करोड़
रुपए

घरेलू बॉण्ड

1,84,712 करोड़ रुपए

बैंक/वित्तीय संस्था से आरटीएल

49,101 करोड़ रुपए

विदेशी मुद्रा ऋण

41,591 करोड़ रुपए

वाणिज्यिक पत्र

2,961 करोड़ रुपए

सबऑर्डिनेट बॉण्ड

9,212 करोड़ रुपए

54 ईसी बॉण्ड

1,588 करोड़ रुपए

अन्य (सीसी/ओडी/ऋण व्यवस्था)

100 करोड़ रुपए

कम लागत निधियों तक पीएफसी की पहुंच



**54ईसी संसाधन
जुटाव में 9माह'19 से
3 गुना बढ़ोतरी**

54ईसी मुख्य विशेषताएं

पात्र निवेशक



व्यक्ति विशेष, एचयूएफ, एनआरआई, एफआई, साझेदारी बैंक, म्यूचुअल फंड बीमा कंपनी, पीएफ फंड

अवधि



अनुमानित (डीमंड) आबंटन तारीख से 5 वर्ष

कूपन दर



5.75% प्रति वर्ष

निवेशकों के लिए हितलाभ


पीएफसी के 54ईसी बॉण्डों में निवेश पर 50 लाख तक की पूंजीगत परिसंपत्ति छूट का हस्तांतरण करने पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ



5 शेयरधारकों का दृष्टिकोण

शेयरधारकों का दृष्टिकोण

इक्विटी बाजार मूल्यांकन अनुपात वृद्धि की संभावना इंगित करते हैं



ईपीएस
(वार्षिक) 21.31
रुपए

प्रति शेयर बही मूल्य 179 रुपए

अर्जन अनुपात की कीमत 5.5

बही मूल्य अनुपात की कीमत 0.66

उपर्युक्त अनुपात छमाही 9 माह'19 के लिए है और रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक बीएसई से उपलब्ध क्लोजिंग शेयर मूल्य के आधार पर है।

धन्यवाद!
कोई प्रश्न?

You can reach PFC's Investor Relations Team at
investorrelations@pfcindia.com

Join us:    @pfclindia  www.pfcindia.com

Disclaimer



- ▷ The presentation is prepared based on stand-alone unaudited financial statements of PFC for quarter ended 31.12.2019
- ▷ There is a possibility of Ind AS financial results and the additional disclosures to be updated, modified or amended because of adjustments which may be required to be made on account of introduction of new standards or its interpretation, receipt of guidelines or circulars from regulatory bodies and/or Reserve Bank of India
- ▷ This presentation may contain statements which reflect Management's current views and estimates and could be construed as forward looking statements. The future involves uncertainties and risks that could cause actual results to differ materially from the current views being expressed. Potential uncertainties and risks include factors such as general economic conditions, currency fluctuations, competitive product and pricing pressures, industrial relations and regulatory developments.
- ▷ We do not update forward-looking statements retrospectively. Such statements are valid on the date of publication and can be superseded.
- ▷ Figures are regrouped / reclassified to make them comparable.
- ▷ 'Analytical data' are best estimates to facilitate understanding of business and NOT meant to reconcile reported figures.
- ▷ Answers will be given only to non-price sensitive questions.
- ▷ This presentation is for information purpose only and does not constitute an offer or recommendation to buy or sell any securities of PFC. Any action taken by you on the basis of the information contained in the presentation is your responsibility alone and PFC or its directors or employees will not be liable in any manner for the consequence of such actions taken by you.